

Transliteration–Telugu

Transliteration as per Modified Harvard-Kyoto (HK) Convention
(including Telugu letters – Short e, Short o) -

a A i I u U
R RR IR IRR
e E ai o O au M (H or :)

(e – short | E – Long | o – short | O – Long)

k kh g gh n/G
c ch j jh n/J
T Th D Dh N
t th d dh n
p ph b bh m
y r l L v
S sh s h

(jn – as in jnAna)

jO jO rAma-rItigauLa

In the kRti ‘jO jO rAma Ananda’ – rAga rItigauLa, SrI tyAgarAja puts the Lord the Lord to sleep by singing lullaby.

- P jO jO rAma Ananda ghana
- C1 jO jO daSaratha bAla rAma
jO jO bhUjA lOla rAma (jO)
- C2 jO jO raghu kula tilaka rAma
jO jO kuTila tar(A)laka rAma (jO)
- C3 jO jO nirguNa rUpa rAma
jO jO suguNa kalApa rAma (jO)
- C4 jO jO ravi SaSi nayana rAma
jO jO phaNi vara Sayana rAma (jO)
- C5 jO jO mRdu tara bhAsha rAma
jO jO manjuLa vEsha rAma (jO)
- C6 jO jO tyAgarAj(A)rcita rAma
jO jO ¹bhakta samAja rAma (jO)

Gist

May You Sleep –
O Lord rAma! O Pure Bliss!
O Lord rAma - Son of King daSaratha!
O Lord rAma – Consort of sItA!
O Lord rAma – the Most Eminent of the raghu dynasty!
O Lord rAma – who has curly ringlets!
O Lord rAma – of the form which is beyond all qualities!
O Lord rAma – bundle of virtues!
O Lord rAma – who has Sun and Moon as Eyes!
O Lord rAma – reclining on the blessed SEsha!

O Lord rAma – who is soft spoken!
O Lord rAma – who donned garb of lovely form (of rAma)!
O Lord rAma – worshipped by this tyAgarAja!
O Lord rAma – found in the assembly of devotees!

Word-by-word Meaning

- P May You Sleep (jO jO) O Lord rAma! O Pure (ghana) Bliss (Ananda)!
- C1 May You Sleep (jO jO) O Lord rAma - Son (bAla) of King daSaratha!
May You Sleep (jO jO) O Lord rAma – Consort (lOla) (literally enamoured by) of sItA – daughter of Earth (bhUja)!
- C2 May You Sleep (jO jO) O Lord rAma – the Most Eminent (tilaka) of the raghu dynasty (kula)!
May You Sleep (jO jO) O Lord rAma – who has curly (kuTila tara) ringlets (alaka) (tarAlaka)!
- C3 May You Sleep (jO jO) O Lord rAma – of the form (rUpa) which is beyond all qualities (nirguNa)!
May You Sleep (jO jO) O Lord rAma – bundle (kalApa) of virtues (suguNa)!
- C4 May You Sleep (jO jO) O Lord rAma – who has Sun (ravi) and Moon (SaSi) as Eyes (nayana)!
May You Sleep (jO jO) O Lord rAma – reclining (Sayana) on the blessed (vara) SEsha – the snake (phaNi)!
- C5 May You Sleep (jO jO) O Lord rAma – who is soft (mRdu tara) spoken (bhAsha)!
May You Sleep (jO jO) O Lord rAma – who donned garb (vEsha) of lovely (manjuLa) form (of rAma)!
- C6 May You Sleep (jO jO) O Lord rAma – worshipped (arcita) by this tyAgarAja (tyAgarAjArcita)!
May You Sleep (jO jO) O Lord rAma – found in the assembly (samAja) of devotees (bhakta)!

Notes –
Variations

References -

¹ - bhakta samAja – found in the assembly of devotees. The following famous verse of bhajana sampradAya is relevant –

Lord said -

nAhaM vasAmi vaikuNThE na yOgi hRdayE ravaau |
madbhaktaH yatra gAyanti tatra tishThami nArada ||

“O nArada! Neither I live vaikuNTha nor in the hearts of yOgi. I am indeed there where my bhaktas are singing (my praises).

Comments –

Devanagari

प. जो जो राम आनन्द घन

च1. जो जो दशरथ बाल राम

जो जो भूजा लोल राम (जो)

च2. जो जो रघु कुल तिलक राम

जो जो कुटिल त(रा)लक राम (जो)

च3. जो जो निर्गुण रूप राम

जो जो सु-गुण कलाप राम (जो)

च4. जो जो रवि शशि नयन राम

जो जो फणि वर शयन राम (जो)

च5. जो जो मृदु तर भाष राम

जो जो मञ्जुळ वेष राम (जो)

च6. जो जो त्यागरा(जा)र्चित राम

जो जो भक्त समाज राम (जो)

English with Special Characters

pa. jō jō rāma ānanda ghana

ca1. jō jō daśaratha bāla rāma

jō jō bhūjā lōla rāma (jō)

ca2. jō jō raghu kula tilaka rāma

jō jō kuṭila ta(rā)laka rāma (jō)

ca3. jō jō nirguṇa rūpa rāma

jō jō su-guṇa kalāpa rāma (jō)

ca4. jō jō ravi śaśi nayana rāma

jō jō phaṇi vara śayana rāma (jō)

ca5. jō jō mr̥du tara bhāṣa rāma

jō jō mañjuļa vēṣa rāma (jō)

ca6. jō jō tyāgarā(jā)rcita rāma

jō jō bhakta samāja rāma (jō)

Telugu

- ప. జో జో రామ ఆనంద ఘన
 చ1. జో జో దశరథి బాల రామ
 జో జో భూజా లోల రామ (జో)
 చ2. జో జో రఘు కుల తిలక రామ
 జో జో కుటిల త(రా)లక రామ (జో)
 చ3. జో జో నిర్మణ రూప రామ
 జో జో సు-గుణ కలాప రామ (జో)
 చ4. జో జో రవి శశి నయన రామ
 జో జో ఫణి వర శయన రామ (జో)
 చ5. జో జో మృదు తర భాష రామ
 జో జో మజ్జుల వేష రామ (జో)
 చ6. జో జో త్యాగరా(జా)ర్చుత రామ
 జో జో భక్త సమాజ రామ (జో)

Tamil

- ப. ஜோ ஜோ ராம ஆனந்த³ க⁴ன
 ச1. ஜோ ஜோ த³ஸரத² பா³ல ராம
 ஜோ ஜோ பு⁴ஜா லோல ராம (ஜோ)
 ச2. ஜோ ஜோ ரகு⁴குல திலக ராம
 ஜோ ஜோ குடில த(ரா)லக ராம (ஜோ)
 ச3. ஜோ ஜோ நிர்கு³ண ரூப ராம
 ஜோ ஜோ ஸாகு³ண கலாப ராம (ஜோ)
 ச4. ஜோ ஜோ ரவி ஸவி நயன ராம
 ஜோ ஜோ ப²ணி வர ஸயன ராம (ஜோ)
 ச5. ஜோ ஜோ ம்³ருது³ தர பா⁴ஷ ராம
 ஜோ ஜோ மஞ்ஜள வேஷ ராம (ஜோ)
 ச6. ஜோ ஜோ த்யாக³ரா(ஜா)ர்சித ராம
 ஜோ ஜோ ப⁴க்த ஸமாஜ ராம (ஜோ)

தாலேலோ, இராமா! ஆனந்த வடிவோனே!

1. தாலேலோ, தசரதன் மெந்தா, இராமா!
 தாலேலோ, புவி மகள் காதலனே, இராமா!
2. தாலேலோ, இரகு குலத் திலகமே, இராமா!
 தாலேலோ, சுருள் முடியோனே, இராமா!
3. தாலேலோ, குணங்களற்ற உருவத்தோனே, இராமா!
 தாலேலோ, நற்குணக் குவியலே, இராமா!

4. ತಾಲೆಲೋ, ಪರಿತಿ ಮತಿ ಕಣ್ಕಗೊನೆ, ಇರಾಮಾ!
ತಾಲೆಲೋ, ಉಯರ್ ಅರವಣಣಯೋನೆ, ಇರಾಮಾ!
5. ತಾಲೆಲೋ, ಮೆಂಚೊಲುಲೋನೆ, ಇರಾಮಾ!
ತಾಲೆಲೋ, ಇನಿಯ ವೇಟತ್ತೋನೆ, ಇರಾಮಾ!
6. ತಾಲೆಲೋ, ತಿಯಾಕರಾಚನಾಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಪಟ್ಟೋನೆ, ಇರಾಮಾ!
ತಾಲೆಲೋ, ತೊಣಂಟಾರ್ ಸಮಕತ್ತಾರ್ವೋನೆ, ಇರಾಮಾ!

Kannada

- ಪ. ಜೋ ಜೋ ರಾಮ ಅನ್ದಾ ಘನೆ
ಚೆ. ಜೋ ಜೋ ದಶರಥ ಭಾಲ ರಾಮ
ಜೋ ಜೋ ಭೂಜಾ ಲೋಲ ರಾಮ (ಜೋ)
ಚೆ. ಜೋ ಜೋ ರಘು ಕುಲ ತಿಲಕ ರಾಮ
ಜೋ ಜೋ ಕುಟಿಲ ತ(ರ)ಲಕ ರಾಮ (ಜೋ)
ಚೆ. ಜೋ ಜೋ ನಿರ್ಣಣ ರೂಪ ರಾಮ
ಜೋ ಜೋ ಸು-ಗುಣ ಕಲಾಪ ರಾಮ (ಜೋ)
ಚೆ. ಜೋ ಜೋ ರವಿ ಶಶಿ ನಯನ ರಾಮ
ಜೋ ಜೋ ಘಣೆ ವರ ಶಯನ ರಾಮ (ಜೋ)
ಚೆ. ಜೋ ಜೋ ಮೃದು ತರ ಭಾಷ ರಾಮ
ಜೋ ಜೋ ಮಜ್ಜಳ ವೇಷ ರಾಮ (ಜೋ)
ಚೆ. ಜೋ ಜೋ ತ್ಯಾಗರಾ(ಜಾ)ರಿಷತ ರಾಮ
ಜೋ ಜೋ ಭಕ್ತ ಸಮಾಜ ರಾಮ (ಜೋ)

Malayalam

- പ. ಜೋ ಜೋ ರಾಮ ಅರುಗು ಇಲಂ
ಚ1. ಜೋ ಜೋ ಉರುಮ ಬೂಲ ರಾಮ
ಜೋ ಜೋ ಭೂಜಾ ಲೋಲ ರಾಮ (ಜೋ)
ಚ2. ಜೋ ಜೋ ರಘು ಕುಲ ತಿಲಕ ರಾಮ
ಜೋ ಜೋ ಕುಟಿಲ ತ(ರ)ಲಕ ರಾಮ (ಜೋ)
ಚ3. ಜೋ ಜೋ ನಿರ್ಣಣ ರೂಪ ರಾಮ
ಜೋ ಜೋ ಸು-ಗುಣ ಕಲಾಪ ರಾಮ (ಜೋ)
ಚ4. ಜೋ ಜೋ ರವಿ ಶಶಿ ನಯನ ರಾಮ
ಜೋ ಜೋ ಹಣಿ ವರ ಶಯನ ರಾಮ (ಜೋ)

- চৰ5. জ্ঞেৱ জ্ঞেৱ মৃত্যু তৰ বেৱশ রাম
জ্ঞেৱ জ্ঞেৱ মণ্ডলীভূত বেৱশ রাম (জ্ঞেৱ)
- চৰ6. জ্ঞেৱ জ্ঞেৱ ত্যোগৰা(জ্ঞ)ৰচীত রাম
জ্ঞেৱ জ্ঞেৱ কেৰ সমাজ রাম (জ্ঞেৱ)

Assamese

- প. জো জো বাম আনন্দ ঘন
- চ১. জো জো দশৰথ বাল বাম
জো জো ভূজা লোল বাম (জো)
- চ২. জো জো রঘু কুল তিলক বাম
জো জো কুটিল ত(বা)লক বাম (জো)
- চ৩. জো জো নিশ্চণ রূপ বাম
জো জো সু-গুণ কলাপ বাম (জো)
- চ৪. জো জো বৱি শশি নয়ন বাম
জো জো ফণি রৱ শয়ন বাম (জো)
- চ৫. জো জো মধু তৰ ভাষ বাম
জো জো মঙ্গল রেষ বাম (জো)
- চ৬. জো জো আগৰা(জা)চিত বাম
জো জো ভক্ত সমাজ বাম (জো)

Bengali

- প. জো জো রাম আনন্দ ঘন
- চ১. জো জো দশৰথ বাল রাম
জো জো ভূজা লোল রাম (জো)
- চ২. জো জো রঘু কুল তিলক রাম
জো জো কুটিল ত(রা)লক রাম (জো)
- চ৩. জো জো নিশ্চণ রূপ রাম
জো জো সু-গুণ কলাপ রাম (জো)
- চ৪. জো জো রবি শশি নয়ন রাম

જો જો ફળિ બર શયન રામ (જો)

ચ૫. જો જો મૃદુ તર ભાષ રામ

જો જો મજૂલ વેષ રામ (જો)

ચ૬. જો જો આગરા(જા)ચિત રામ

જો જો ભક્ત સમાજ રામ (જો)

Gujarati

પ. જો જો રામ આનંદ ઘન

ચ૧. જો જો દશરથ બાલ રામ

જો જો ભૂજ લોલ રામ (જો)

ચ૨. જો જો રઘુ કુલ તિલક રામ

જો જો કુટિલ ત(રા)લક રામ (જો)

ચ૩. જો જો નિર્ગુણ રૂપ રામ

જો જો સુ-ગુણ કલાપ રામ (જો)

ચ૪. જો જો રવિ શશી નયન રામ

જો જો ફણિ વર શયન રામ (જો)

ચ૫. જો જો મૃદુ તર ભાષ રામ

જો જો મજૂલ વેષ રામ (જો)

ચ૬. જો જો ત્યાગરા(જા)ચિત રામ

જો જો ભક્ત સમાજ રામ (જો)

Oriya

ପ. କୋ କୋ ରାମ ଥାନନ୍ଦ ଘନ

ଚ୧. କୋ କୋ ଦଶରଥ ବାଲ ରାମ

କୋ କୋ ଭୂଜା ଲୋଲ ରାମ (କୋ)

ଚ୨. କୋ କୋ ରଘୁ କୁଲ ତିଲକ ରାମ

କୋ କୋ କୁଟିଲ ତ(ରା)ଲକ ରାମ (କୋ)

ଚ୩. କୋ କୋ ନିର୍ଗୁଣ ରୂପ ରାମ

କୋ କୋ ସୁ-ଗୁଣ କଲାପ ରାମ (କୋ)

ଚ୪. କୋ କୋ ରଖି ଶଶි ନଯନ ରାମ

ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਹਨੌਰਾਂ

੧੪. ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਰਾਮ (ਜੋ)

੧੫. ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਰਾਮ (ਜੋ)

੧੬. ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਰਾਮ (ਜੋ)

੧੭. ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਰਾਮ (ਜੋ)

੧੮. ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਰਾਮ (ਜੋ)

Punjabi

ਪ. ਜੋ ਜੋ ਰਾਮ ਆਨਨਦ ਘਨ

ਚ੧. ਜੋ ਜੋ ਦਸ਼ਰਥ ਬਾਲ ਰਾਮ

ਜੋ ਜੋ ਤੁਜਾ ਲੋਲ ਰਾਮ (ਜੋ)

ਚ੨. ਜੋ ਜੋ ਰਘੁ ਕੁਲ ਤਿਲਕ ਰਾਮ

ਜੋ ਜੋ ਕੁਟਿਲ ਤੁਲਕ ਰਾਮ (ਜੋ)

ਚ੩. ਜੋ ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਰਾਮ

ਜੋ ਜੋ ਸੁ-ਗੁਣ ਕਲਾਪ ਰਾਮ (ਜੋ)

ਚ੪. ਜੋ ਜੋ ਰਵਿ ਸ਼ਸ਼ਿ ਨਯਨ ਰਾਮ

ਜੋ ਜੋ ਢਣਿ ਵਰ ਸ਼ਯਨ ਰਾਮ (ਜੋ)

ਚ੫. ਜੋ ਜੋ ਮ੍ਰਿਦੁ ਤਰ ਭਾਸ਼ ਰਾਮ

ਜੋ ਜੋ ਮਵਜੂਲ ਵੇਸ਼ ਰਾਮ (ਜੋ)

ਚ੬. ਜੋ ਜੋ ਤਜਾਗਰਾ(ਜਾ)ਰਿਚਤ ਰਾਮ

ਜੋ ਜੋ ਭਕਤ ਸਮਾਜ ਰਾਮ (ਜੋ)